

कृषि विज्ञान केंद्र, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के इनफुट डीलर्स के लिए एग्रिकल्चर एक्सटेंसन सर्विसेस में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (One Year Diploma in Agriculture Extension Services for Input Dealers - DAESI) के प्रशिक्षणार्थियों का आफरी भ्रमण (दिनांक 30.8.2018)

दिनांक 30.8.2018 को कृषि विज्ञान केंद्र, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (KVK, CAZRI), जोधपुर के इनफुट डीलर्स के लिए एग्रिकल्चर एक्सटेंसन सर्विसेस में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (One Year Diploma in Agriculture Extension Services for Input Dealers - DAESI) के 40 प्रशिक्षणार्थियों ने श्री नरेंद्र परिहार, सहजकर्ता (Facilitator) के नेतृत्व में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के निर्वचन केंद्र का भ्रमण किया। प्रशिक्षणार्थियों ने संस्थान के विस्तार एवं निर्वचन केंद्र का भ्रमण कर केंद्र पर प्रदर्शित वानिकी शोध संबंधी विभिन्न सूचनाओं एवं सामग्री का अवलोकन किया। निर्वचन केंद्र पर विस्तार विभाग के डॉ. बिलास सिंह, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, ने संस्थान के विभिन्न प्रभागों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों की जानकारी देते हुए अवक्रमित पहाड़ियों का पुनर्वासन, टिब्बा स्थिरीकरण, जल प्लावित भूमि का पुनर्वासन, कृषि वानिकी से संबन्धित जानकारी, लवण प्रभावित भूमि का पुनर्वासन, राजस्थान के विभिन्न वृक्षों, मुख्य वृक्ष प्रजातियों के बीजों से संबन्धित जानकारी इत्यादि का अवलोकन कराते हुए इस संबंध में प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया।

प्रशिक्षणार्थियों ने संस्थान की प्रायोगिक एवं उच्च तकनीकी पौधशाला तथा औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म बैंक का भी भ्रमण किया। यहाँ पर नर्सरी प्रभारी श्री सादुलराम देवड़ा, तकनीकी अधिकारी ने पौधशाला की तकनीक, विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे एवं कंपोस्ट, जैव उर्वरक इत्यादि की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी।

भ्रमण कार्यक्रम में श्री धानाराम, तकनीकी अधिकारी एवं श्रीमति कुसुम परिहार, तकनीकी अधिकारी का सहयोग रहा।



